



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2897]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2019/भाद्र 12, 1941

No. 2897]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019/BHADRA 12, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2019

का.आ. 3164(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 2100 तारीख 06.09.2017 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 36, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 03.09.2017 से 09.09.2017 का.आ. 1821 तारीख 20.12.2018 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 51, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 23.12.2018 से 29.12.2018 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट आंध्र प्रदेश राज्य के जिला विशाखापटनम के मंडल : सब्बावरम, अनकापल्लिकी भूमि में, ओडीशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे “पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना” के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची					
जिला : विशाखापटनम			राज्य : आंध्र प्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सब्बावरम	दोंगलामर्ली सीतारामपुरम	30	00	28	01
		29	00	47	79
		26	00	27	36
		25	00	49	62
अनकापल्लि	अनकापल्लि	261	00	26	83
		263	00	37	71
		264	00	10	04
		265	00	09	87
		272	00	09	69
		276	00	01	86
		292	00	31	94
		294	00	02	09
		291	00	19	80
		296	00	28	34
		306	00	26	73
		297	00	01	38
		305	00	25	11
		304	00	08	84
		303	00	15	52
		302	00	01	50
		314	00	15	12
		315	00	09	59
		312	00	04	55
		313	00	20	37
		320	00	04	05
		322	00	14	40

		323	00	18	81
		350	00	06	09
		349	00	02	18

अनुसूची**जिला : विशाखापटनम****राज्य : आंध्र प्रदेश**

मंडल का नाम (1)	ग्राम का नाम (2)	सर्वे नम्बर (3)	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर (4)	एयर (5)	वर्गमीटर (6)

अनकापल्लि	अनकापल्लि	347	00	04	00
		330	00	58	00
		331	00	43	39
		337	00	45	60
		338	00	12	65
		1674	00	13	65
		1274	00	13	65
		1426	00	01	80
		1427	00	01	80
		1428	00	12	36
		1429	00	15	53
		1421	00	13	21
		1419	00	30	35
		1418	00	17	00
		1456	00	01	70
		1457	00	20	04
		1458	00	18	11
		1464	00	26	84
		1467	00	18	59
		1474	00	33	31
		1475	00	12	78
		1477	00	26	57
		1480	00	18	60
		1481	00	08	36
		1487	00	30	83
		1486	00	01	25

		1505	00	01	29
		1489	00	19	89
		1488	00	15	13
		1490	00	13	54

अनुसूची					
जिला : विशाखापटनम			राज्य : आंध्र प्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अनकापल्लि	अनकापल्लि	1501	00	43	94
		1511	00	32	72
		1513	00	23	30
		1514	00	28	18
		1515	00	21	74
		1516	00	15	29
		1517	00	19	56
		1518	00	22	09
		1519	00	18	56
		1520	00	23	40
		1521	00	24	49
		1523	00	22	53
		1524	00	21	14
		1533	00	19	90
		1532	00	14	72
		1530	00	51	62

[फा.सं. आर-11025(II)252/2017-ओआर-I/ई-21033]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, 23rd August, 2019

S.O. 3164(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No.36 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 03.09.2017 to 09.09.2017 vide S.O.No. 2100 dated 06.09.2017 and No.51 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 23.12.2018 to 29.12.2018 vide S.O.No. 1821 dated 20.12.2018 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines

(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Mandal: Sabbavaram and Anakapalli of Visakhapatnam District in Andhra Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip-Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE					
DISTRICT : VISAKHAPATNAM			STATE : ANDHRA PRADESH		
MANDAL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
			Hectare	Are	Sq. Mt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SABBAVARAM	DONGALAMARRI SITARAMPURAM	30	00	28	01
		29	00	47	79
		26	00	27	36
		25	00	49	62
ANAKAPALLI	ANAKAPALLI	261	00	26	83
		263	00	37	71
		264	00	10	04
		265	00	09	87
		272	00	09	69
		276	00	01	86
		292	00	31	94
		294	00	02	09
		291	00	19	80
		296	00	28	34
		306	00	26	73
		297	00	01	38
		305	00	25	11
		304	00	08	84
		303	00	15	52

		302	00	01	50
		314	00	15	12
		315	00	09	59
		312	00	04	55
		313	00	20	37
		320	00	04	05
		322	00	14	40
		323	00	18	81
		350	00	06	09
		349	00	02	18

SCHEDULE					
DISTRICT : VISAKHAPATNAM			STATE : ANDHRA PRADESH		
MANDAL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
			Hectare	Are	Sq. Mt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

ANAKAPALLI	ANAKAPALLI	347	00	04	00
		330	00	58	00
		331	00	43	39
		337	00	45	60
		338	00	12	65
		1674	00	13	65
		1274	00	13	65
		1426	00	01	80
		1427	00	01	80
		1428	00	12	36
		1429	00	15	53
		1421	00	13	21
		1419	00	30	35
		1418	00	17	00
		1456	00	01	70
		1457	00	20	04
		1458	00	18	11
		1464	00	26	84
		1467	00	18	59
		1474	00	33	31
		1475	00	12	78
		1477	00	26	57
		1480	00	18	60

		1481	00	08	36
		1487	00	30	83
		1486	00	01	25
		1505	00	01	29
		1489	00	19	89
		1488	00	15	13
		1490	00	13	54

SCHEDULE					
DISTRICT : VISAKHAPATNAM			STATE : ANDHRA PRADESH		
MANDAL	VILLAGE	SURVEY NO.	AREA		
			Hectare	Are	Sq. Mt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

ANAKAPALLI	ANAKAPALLI	1501	00	43	94
		1511	00	32	72
		1513	00	23	30
		1514	00	28	18
		1515	00	21	74
		1516	00	15	29
		1517	00	19	56
		1518	00	22	09
		1519	00	18	56
		1520	00	23	40
		1521	00	24	49
		1523	00	22	53
		1524	00	21	14
		1533	00	19	90
		1532	00	14	72
		1530	00	51	62

[F. No. R-11025(II)252/2017-OR-I/E-21033]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.